



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1945 (श0)
(सं0 पटना 451) पटना, बृहस्पतिवार, 1 जून 2023

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी 2023

सं० एसीस-01/नि०/43-2022-99—बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या—06060114, प्रथम इन्टरस्तरीय संयुक्त परीक्षा-2014 के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के निम्नवर्गीय लिपिक के वेतन स्तर 2 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पद प्रभार ग्रहण करने के तिथि से मात्र औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री उत्तम कुमार	4838 / 30024245	सामान्य	शेखपुरा	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बंजारी, रोहतास
2.	श्री दिनेश कुमार	4912 / 30001566	सामान्य	मधुबनी	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, गया
3.	श्री रवि प्रकाश	5533 / 30042095	सामान्य	पूर्णिया	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हथिदह, पटना
4.	श्री मनीष कुमार	7017 / 30040474	सामान्य	वैशाली	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुंगेर

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
5.	श्री संतोष कुमार महतो	23514 / 30002861	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	समस्तीपुर	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुंगेर
6.	श्री सन्नी कुमार	23746 / 30017121	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नालन्दा	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, समस्तीपुर
7.	श्री सर्बजीत कुमार	23772 / 30022753	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पटना	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर
8.	श्री प्रभात रंजन सिंह	23789 / 30012891	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पटना	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाजीपुर
9.	श्री सार्जन कुमार	23942 / 30041811	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	खगड़िया	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कटिहार
10	श्री दीपू कुमार	23973 / 30023776	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नवादा	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पटना सिटी

2. सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्रभार ग्रहण करते समय संलग्न विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र सही होने, थाना अथवा न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने एवं आचरण प्रतिकूल नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. सभी अभ्यर्थी को योगदान के समय असेनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. सभी अभ्यर्थी को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-19 के तहत योगदान के समय विहित प्रपत्र में चल/अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

6. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में मात्र औपबधिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों की औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

7. सारणी के क्रमांक-02 एवं 05 के अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी है, इसलिए नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) तथा अन्य विधि सम्मत आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरान्त ही इनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।

8. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें, भविष्य में गलत पाये जाने पर अथवा पुलिस सत्यापन प्रतिकूल प्राप्त होने पर अन्यथा किसी और कारण से नियुक्ति रद्द करने का एकल अधिकार सरकार को रहेगा और आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध वसूली अथवा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई भी की जा सकेगी।

9. नियुक्ति अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना, लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2014 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

10. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 2082, दिनांक- 01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।

11. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से 15(पंद्रह) दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचन मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ निदेशक, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी

को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

12. यह माननीय उच्च न्यायालय में दायर एल०पी०ए० नं०-276/2020 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

आदेश से,
डा० निर्मल कुमार तिवारी,
निदेशक, चिकित्सा सेवायें।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 451-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>